

नया: सार्वजनिक सूचना

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

Bharat Heavy Electricals Limited

(A Govt. of India Undertaking)

सार्वजनिक सूचना (Public Notice)

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड(बीएचईएल) भारतीय उप महाद्वीप की एक अग्रणी इंजीनियरी प्रतिष्ठान है जो महत्वाकांक्षी इंजीनियरी और तकनीकी पेशेवरों को असंख्य अवसर प्रदान करती है । हमारी भर्ती प्रक्रिया अत्यधिक पारदर्शी, प्रयोजनपरक और लाभप्रद कैरियर के लिए होनहार व्यक्तियों को लेने के लिए डिजाइन की गई है । बीएचईएल सिवाय विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित फीस के अलावा नौकरी/नियुक्ति देने के लिए कोई धनराशि नहीं ली जाती है ।

हमारे ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ बेईमान तत्व पैसे के बदले नौकरी चाहने वालों को झूठे/बोगस नियुक्ति प्रस्ताव जारी कर रहे हैं । अंतः बीएचईएल नौकरी के इच्छुक लोगों, अभ्यर्थियों और आम जनता को यह सूचित करना चाहती है कि अपने हित में इन बेईमान लोगों के चंगुल में न आएं जो असंदिग्ध नौकरी के इच्छुक लोगों/अभ्यर्थियों से पैसा लेकर बीएचईएल और इसकी विभिन्न इकाइयों में रोजगार प्रदान कर रहे हैं ।

बीएचईएल उपयुक्त रूप से रिक्तियों को अधिसूचित करके प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों/रोजगार समाचार में प्रकाशित करके और इसे अपनी वेबसाइटों यथा www.bhel.com और <http://careers.bhel.in> में अपलोड करके अभ्यर्थियों की भर्ती करता है।पदों पर चयन हमारे विज्ञापन में उल्लिखित चयन प्रक्रिया का पालन करके किया जाता है । यह चयन बिना कोई पैसा लिए और केवल लिखित परीक्षा/साक्षात्कार लेकर किया जाता है । हमारी भर्ती प्रक्रिया मुख्य रूप से ई-समर्थित है और आवेदन करने से लेकर बीएचईएल द्वारा चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने तक का कार्य हमारी भर्ती वेबसाइट <http://careers.bhel.in> के माध्यम से पूरा किया जाता है । बीएचईएल समय-समय पर आईआईटीज/एनआईटीज/आईसीएआई/आईसीडब्ल्यूआई के कैम्पसों तथा अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरी संस्थानों से इंजीनिरिंग/प्रबंध/वित्त पेशेवरों की समय-समय पर सीधी भर्ती भी करता है, जिसके लिए कोई धनराशि नहीं ली जाती है । हमने अपनी

ओर से भर्ती करने या नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने अथवा ऐसे नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने के बदले धन लेने के लिए किसी भी व्यक्ति/संस्थान/निकाय को अधिकृत नहीं किया है ।

हम आम जनता को सावधान करते हैं कि वे किसी भी कपटपूर्ण सूचना से बचें, जिसमें बीएचईएल या इसकी किसी भी विनिर्माण इकाइयों/डिविजनों/कार्यालयों में नौकरी देने/नियुक्ति प्रस्ताव देने के बदले धन/ भुगतान/मनी ट्रांसफर लेने की बात कही गई हो ।
